

Northern Coalfields Limited

(Govt. of India Mini Ratna Company)

Post- Singrauli Colliery

Distt- Singrauli MP PIN-486889



नॉर्डन कोलफील्ड्स लिमिटेड

(भारत सरकार का एक मिनि रत्न प्रतिष्ठान)

पोस्ट सिंगरौली कोलियरी,

जिला- सिंगरौलीम. प्र., पिन 486889

CIN- U10102MP1985GOI003160

Phone: 07805- 266808 (Off) , 266640 (Fax)email: pro@ncl.gov.inwebsite : www.ncl.gov.in

An ISO: 9001, ISO: 14001 & OHSAS: 18001 Certified Company

पत्रक० एनसीएल/ज०स०वि०/प्रेसवि०/2016-17/134

दिनांक- 18/06/2016

id foKflr

ककरी परियोजना में हुआ सिलाई-कढ़ाई केंद्र का उद्घाटन सीएसआर के अंतर्गत महिलाओं को दिया जाएगा निःशुल्क प्रशिक्षण

भारत सरकार की मिनीरत्न कंपनी नॉर्डन कोलफील्ड्स लिमिटेड (एनसीएल) स्थानीय लोगों को रोजगार पाने में मदद करने के लिए निगमित सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के अंतर्गत उनके कौशल विकास के अनेक कार्यक्रम चला रही है। इसी क्रम में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए कंपनी की ककरी परियोजना में गुरुवार को सीएसआर के अंतर्गत नवनिर्मित निःशुल्क सिलाई-कढ़ाई केंद्र का उद्घाटन ककरी परियोजना के महाप्रबंधक श्री ए० न० पाण्डेय द्वारा किया गया। उद्घाटन समारोह में एकता महिला समिति, ककरी परियोजना की अध्यक्ष श्रीमती ममता पाण्डेय बतौर विशिष्ठ अतिथि अपने पूरे महिला मंडल टीम के साथ उपस्थित थीं।

उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि श्री ए० एन० पाण्डेय ने परियोजना के सिविल विभाग की पूरी टीम की सराहना करते हुए बधाई दी। साथ ही, स्थानीय महिलाओं के कौशल विकास की दिशा में इसे एक अच्छा प्रयास बताया और उम्मीद जताई की सिलाई-कढ़ाई केंद्र से प्रशिक्षण प्राप्त महिलाओं को स्थाई रोजगार मिलेगा।

नए बने इस भव्य भवन का कार्य कुल चार महीनों में पूरा किया गया जिसमें शौचालय के साथ दो हॉल एवं एक बरामदा और कार्यालय भवन बनाए गए हैं। भवन के निर्माण में लगभग 12.50 लाख रुपए की राशि खर्च हुई। इस सिलाई केंद्र के संचालन से आस पास के गांवों के लगभग 250 लोग लाभान्वित होंगे।

कार्यक्रम के उद्घाटन के दौरान ककरी परियोजना के उप महाप्रबंधक (खान) श्री राजीव कुमार, स्टाफ अधिकारी (असैनिक), श्री ए०के० सिंह, स्टाफ अधिकारी (ई० एंड एम०) एस०के० कोष्टा, स्टाफ अधिकारी (कार्मिक) श्री पी०पी० सिंह, स्टाफ अधिकारी (वित्त) श्री एस० कंडासामी सहित ट्रेड यूनियन के सम्मानित सदस्य एवं एकता महिला समिति की पूरी टीम उपस्थित थी।

सीरज कुमार सिंह
जनसंपर्क अधिकारी